

Exam Level	: SSC CGL Tier 1 ▾
Test Date	: 13 Sep 2025
Test Time and Shift	: 12:30 PM (Shift-2)

Correct Option selected Wrong Option selected Correct Option Not Answered

Save / Print

- [Click Here for PART-A](#)
[Click Here for PART-B](#)
[Click Here for PART-C](#)
[Click Here for PART-D](#)

PART-A (General Intelligence and Reasoning)

[Click Here to Challenge Question No.: 1](#)

Q.No: 1 In the following question, select the related word from the given alternatives.
Architect : Design :: Chef : ?
 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए।
वास्तुकार : डिज़ाइन :: बावर्ची : ?

<input type="radio"/>	Cook
<input type="radio"/>	पकाना
<input type="radio"/>	Serve
<input type="radio"/>	सेवा करना
<input type="radio"/>	Recipe
<input type="radio"/>	व्यंजन विधि
<input checked="" type="radio"/>	Food
<input type="radio"/>	खाना

[Click Here to Challenge Question No.: 2](#)

Q.No: 2 In the following question, select the related word from the given alternatives
Utilitarianism : Consequence :: Deontology : ?
 निम्नलिखित प्रश्न में, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें
उपयोगितावाद : परिणाम :: कर्तव्यशास्त्र : ?

<input type="radio"/>	Virtue
<input type="radio"/>	गुण
<input checked="" type="radio"/>	Duty
<input type="radio"/>	कर्तव्य
<input type="radio"/>	Intention
<input type="radio"/>	इरादा
<input type="radio"/>	Value
<input type="radio"/>	कीमत

[Click Here to Challenge Question No.: 3](#)

Q.No: 3	Select the letters from among the given options that can replace the question mark (?) in the following series. K, M, O, ?, S, U, ?, Y दिए गए विकल्पों में से वह अक्षर चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिह्न (?) के स्थान पर आ सके। K, M, O, ?, S, U, ?, Y
	Q, X
	Q, X
	Q, W
	Q, W
	P, W
	P, W
	R, W
	R, W

[Click Here to Challenge Question No.: 4](#)

Q.No: 4	Select the letter-cluster from among the given options that can replace the question mark (?) in the following series. PQR, STU, VWX, ? दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर-समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) को प्रतिस्थापित कर सके। PQR, STU, VWX, ?
	YZD
	YZD
	YVA
	YVA
	YZA
	YZA
	DFR
	DFR

[Click Here to Challenge Question No.: 5](#)

Q.No: 5	Select the letter-cluster from among the given options that can replace the question mark (?) in the following series. YMW, VJT, SGQ, PDN, ? दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर-समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) को प्रतिस्थापित कर सके। YMW, VJT, SGQ, PDN, ?
	TYD
	TYD
	HGF
	HGF
	MJH
	MJH
	MAK
	MAK

[Click Here to Challenge Question No.: 6](#)

Q.No: 6	Select the letter-cluster from among the given options that can replace the question mark (?) in the following series: RBEH, RGOW, RLYL, RQIA, ? दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर-समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आ सकता है: RBEH, RGOW, RLYL, RQIA, ?
	RVSP
	RVSP
	RVSH
	RVSH
	RVHS
	RVHS
	RSVP
	RSVP

Not Answered

Q.No: 7 Select the letter-cluster from among the given options that can replace the question mark (?) in the following series: **CDEF, CKSA, CRGV, CYUQ, ?**
 दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर-समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आ सकता है:
CDEF, CKSA, CRGV, CYUQ, ?

C E H K
 C E H K
 C F H K
 C F H K
 C F H L
 C F H L
 C F I L
 C F I L

Not Answered

Q.No: 8 Complete the pattern: **120, 96, 76.8, 61.44, ?**
 श्रृंखला को पूरा करें: **120, 96, 76.8, 61.44, ?**

60.27
 60.27
 78.91
 78.91
 47.89
 47.89
 49.152
 49.152

Not Answered

Q.No: 9 Each of the letters in the word CONTRAST is arranged in alphabetical order. How many letters are there in the English alphabetical series between the letter that is first from the left and the one that is fifth from the right in the new letter-cluster formed?
 CONTRAST शब्द में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। नए अक्षर-समूह में बाएं से पहले अक्षर और दाएं से पांचवें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं?

10
 10
 13
 13
 15
 15
 11
 11

Q.No: 10 **Which of the following addresses are identical to each other:**
 1. S. Iyer 17-D, Coral Residency, Thiruvananthapuram , 695014
 2. S. Iyer 17-D, Coral Residency, Thiruvananthapuram , 695014
 3. S. Iyer 17-D Coral Residency, Thiruvananthapuram , 695014
 4. S. Iyer 17-D Coral Residency, Thiruvananthapuram , 695013

निम्नलिखित में से कौन से पते एक दूसरे के समान हैं:
 1. एस. अय्यर 17-डी, कोरल रेजिडेंसी, तिरुवनंतपुरम, 695014
 2. एस. अय्यर 17-डी, कोरल रेजिडेंसी, तिरुवनंतपुरम, 695014
 3. एस. अय्यर 17-डी कोरल रेजिडेंसी, तिरुवनंतपुरम, 695014
 4. एस. अय्यर 17-डी कोरल रेजिडेंसी, तिरुवनंतपुरम, 695013

	1 and 2
	1 और 2
	1 and 3
	1 और 3
	2 and 4
	2 और 4
	3 and 4
	3 और 4

[Click Here to Challenge Question No.: 11](#)

Q.No: 11 Which of the following is/are identical to the address given: Sunil Kumar 21/4, Ashok Vihar, Delhi, 110052

1. Sunil Kumer 21/4, Ashok Vihar, Delhi, 1100522
2. Sunil Kumer 21/4, Ashok Vihar, Delhi, 110052
3. Sunil Kumer 21/4, Ashok Vihar, New Delhi, 110052
4. Sunil Kumar 21/4, Ashok Vihar, Delhi, 110053

निम्नलिखित में से कौन सा/से पते दिए गए पते के समान है/हैं: सुनील कुमार 21/4, अशोक विहार, दिल्ली, 110052

1. सुनील कुमार 21/4, अशोक विहार, दिल्ली, 1100522
2. सुनील कुमार 21/4, अशोक विहार, दिल्ली, 110052
3. सुनील कुमार 21/4, अशोक विहार, नई दिल्ली, 110052
4. सुनील कुमार 21/4, अशोक विहार, दिल्ली, 110053

1 Only

केवल 1

3 Only

केवल 3

2 Only

केवल 2

4 Only

केवल 4

[Click Here to Challenge Question No.: 12](#)

Q.No: 12 Find the best option that best completes the analogy.

CAB : EDF :: GIH : ?

वह सर्वोत्तम विकल्प चुनिए जो सादृश्य को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता है।

CAB : EDF :: GIH : ?

JKL

JKL

KJI

KJI

ILL

ILL

JLI

JLI

[Click Here to Challenge Question No.: 13](#)

Q.No: 13 Find the option that best completes the analogy.

DP : XZ :: EN : ?

वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो सादृश्य को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता है।

DP : XZ :: EN : ?

YZ

YZ

YB

YB

ZB

ZB

YX

YX

Q.No: 14 Ten persons are sitting in two parallel rows containing five persons each, such that there is an equal distance between adjacent persons.
 Line 1: Five men (A-E) are seated and all of them are facing South.
 Line 2: Five women (M-Q) are seated and all of them are facing North.
 Based on the arrangement, answer the question:
 D is opposite to M.
 M is at one of the extreme ends of Line 2.
 O is at the center position of Line 2.
 Who is second to the right of M in Line 2 (facing North)?

दस व्यक्ति दो समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक में पाँच व्यक्ति हैं, इस प्रकार कि आसन्न व्यक्तियों के बीच समान दूरी है।
 पंक्ति 1: पाँच पुरुष (A-E) बैठे हैं और सभी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं।
 पंक्ति 2: पाँच महिलाएँ (M-Q) बैठी हैं और सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं।
 व्यवस्था के आधार पर, प्रश्न का उत्तर दीजिए:
 D, M के विपरीत है।
 M, पंक्ति 2 के किसी एक छोर पर है।
 O, पंक्ति 2 के मध्य में है।
 पंक्ति 2 में M के दाईं ओर दूसरा कौन है (उत्तर की ओर मुख करके)?

O
 O
 M
 M
 A
 A
 N
 N

Not Answered

Click Here to Challenge Question No.: 15

Q.No: 15 In each of the following questions, a specific rearrangement pattern is applied to the first word to form the second. Identify the same pattern and apply it to the third word to determine the correct answer from the given alternatives. **AROUND : RAUODN :: GROUND : ?**
 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, पहले शब्द को दूसरे शब्द में बदलने के लिए एक विशिष्ट पुनर्व्यवस्था पैटर्न का उपयोग किया गया है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर निर्धारित करने के लिए उसी पैटर्न को पहचानिए और इसे तीसरे शब्द पर लागू कीजिए। **AROUND : RAUODN :: GROUND : ?**

RGUODN
 RGUODN
 NDOOGR
 NDOOGR
 OUNDGR
 OUNDGR
 DNLUURG
 DNLUURG

Click Here to Challenge Question No.: 16

Q.No: 16 In each of the following questions, the second group of letters is formed from the first using a specific alphabetical transformation. Apply the same pattern to the third group and find the correct option that completes the analogy. **QDXM : SFYN :: UIOZ : ?**

निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, अक्षरों का दूसरा समूह पहले समूह से एक विशिष्ट वर्णमाला परिवर्तन का उपयोग करके बनाया गया है। इसी पैटर्न को तीसरे समूह पर लागू कीजिए और वह सही विकल्प चुनिए जो सादृश्य को पूरा करता हो। **QDXM : SFYN :: UIOZ : ?**

PAQM
 PAQM
 LPWA
 LPWA
 QNLA
 QNLA
 WKPA
 WKPA

Q.No: 17 Choose the odd one:

असंगत का चयन करें।

2, 4, 8

2, 4, 8

3, 9, 27

3, 9, 27

5, 25, 125

5, 25, 125

4, 16, 36

4, 16, 36

Click Here to Challenge Question No.: 18

Q.No: 18 In each of the following questions, a group of three numbers/symbols is given in each option. Identify the group that does NOT follow the same pattern as the others.

निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, प्रत्येक विकल्प में तीन संख्याओं/प्रतीकों का एक समूह दिया गया है। उस समूह की पहचान कीजिए जो अन्य के समान स्वरूप का पालन नहीं करता है।

M13 : J10 : 67

M13 : J10 : 67

Z26 : W23 : T20

Z26 : W23 : T20

D4 : A1 : X24

D4 : A1 : X24

H8 : E6 : B4

H8 : E6 : B4

Click Here to Challenge Question No.: 19

Q.No: 19 In each of the following questions, a group of three numbers/symbols is given in each option. Identify the group that does NOT follow the same pattern as the others.

निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, प्रत्येक विकल्प में तीन संख्याओं/प्रतीकों का एक समूह दिया गया है। उस समूह की पहचान कीजिए जो अन्य के समान स्वरूप का पालन नहीं करता है।

Z1\$: Y2# : X3@

Z1\$: Y2# : X3@

W4% : V5^ : U6&

W4% : V5^ : U6&

T7* : S8(: R9)

T7* : S8(: R9)

Q10\$: P11\$: O12\$

Q10\$: P11\$: O12\$

Click Here to Challenge Question No.: 20

Q.No: 20 B is the daughter of A. C is the husband of B. D is the son of C. How is A related to D?

B, A की पुत्री है। C, B का पति है। D, C का पुत्र है। A, D से किस प्रकार संबंधित है?

Father

पिता

Grandfather

दादाजी

Grandmother

दादी

Cannot be determined

तय नहीं किया जा सकता

Q.No: 21 If 'X' means '+', 'Y' means '-', 'Z' means 'x', and 'W' means '÷'

what is the value of the following expression?

$$15 W 3 X 2 Y 4 = ?$$

यदि 'X' का अर्थ '+', 'Y' का अर्थ '-', 'Z' का अर्थ 'x' और 'W' का अर्थ '÷' है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है?

$$15 W 3 X 2 Y 4 = ?$$

1

1

3

3

5

5

7

7

Click Here to Challenge Question No.: 22

Q.No: 22 A's father's wife's only daughter is B. How is A related to B?

A के पिता की पत्नी की एकमात्र पुत्री B है। A का B से क्या संबंध है?

Nephew

भतीजा

Cousin

चचेरा

Sibling

भाई बहन

Uncle

चाचा

Click Here to Challenge Question No.: 23

Q.No: 23 Introducing a boy, a girl says, "He is the son of my mother's only son." Who is the boy to the girl?

एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की कहती है, "वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है।" लड़का लड़की का कौन है?

Brother

भाई

Son

बेटा

Nephew

भतीजा

Cousin

चचेरा

Click Here to Challenge Question No.: 24

Q.No: 24 A is the wife of B. B is the brother of C. C is the father of D. How is A related to D?

A, B की पत्नी है। B, C का भाई है। C, D का पिता है। A, D से किस प्रकार संबंधित है?

Aunt

चाची

Mother

माँ

Sister-in-law

भाभी

[Click Here to Challenge Question No.: 25](#)Q.No: 25 If '+' means '-', '-' means '+', 'x' means '+', then $50 + 10 - 5 \times 5 = ?$ यदि '+' का अर्थ '-' है, '-' का अर्थ '+' है, 'x' का अर्थ '+' है, तो $50 + 10 - 5 \times 5 = ?$

41

41

60

60

65

65

70

70

Exam Level	: SSC CGL Tier 1 ▾
Test Date	: 13 Sep 2025
Test Time and Shift	: 12:30 PM (Shift-2)

Correct Option selected Wrong Option selected Correct Option Not Answered

Save / Print

- [Click Here for PART-A](#)
- [Click Here for PART-B](#)
- [Click Here for PART-C](#)
- [Click Here for PART-D](#)

PART-B (General Awareness)

Click Here to Challenge Question No.: 26	
Q.No: 26	<p>Arrange the following sites in chronological order based on the stylistic development of Buddhist sculpture:</p> <p>a) Mathura b) Bharhut c) Sanchi Stupa-1</p> <p>बौद्ध मूर्तिकला के शैलीगत विकास के आधार पर निम्नलिखित स्थलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:</p> <p>a) मथुरा b) भरहुत c) सांची स्तूप-1</p>
	b-c-a
	b-c-a
	c-a-b
	c-a-b
	c-b-a
	c-b-a
	a-c-b
	a-c-b

Click Here to Challenge Question No.: 27	
Q.No: 27	<p>Which of the following statements about the Chithirai Festival of Madurai is correct?</p> <p>मदुरै के चिथिरई महोत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?</p> <p>The Chithirai Festival is celebrated in the tamil month of Margazhi</p> <p>चिथिरई महोत्सव तमिल माह मार्गाजी में मनाया जाता है</p> <p>Lord Kallazhagar arrives on a golden horse</p> <p>भगवान कल्लझगर का स्वर्णिम घोड़े पर आगमन</p> <p>The festival is held exclusively in December</p> <p>यह उत्सव विशेष रूप से दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है</p> <p>The festival ends with a game of bullfight</p> <p>यह उत्सव बैल-लड़ाई के खेल के साथ समाप्त होता है</p>
Not Answered	

Q.No: 28 What is the term for a structured musical composition in Hindustani classical music?

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संरचित संगीत रचना के लिए क्या शब्द है?

Kriti

कृति

Bandish

बंदिश

Gamaka

गमक

Rasa

रस

Not Answered

Click Here to Challenge Question No.: 29

Q.No: 29 Consider the following statements regarding belt ranks and competition area in Judo:

- 1) A red-and-white belt is associated with judokas from Sixth dan to Eighth dan levels.
- 2) A shared safety zone of at least 1 meter must be maintained between adjoining competition areas.

Which of the above statements is/are correct?

जूडो में बेल्ट रैंक और प्रतियोगिता क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1) लाल और सफेद बेल्ट छठे डैन से आठवें डैन स्तर तक के जूडोकाओं से जुड़ी होती है।
 - 2) आस-पास के प्रतियोगिता क्षेत्रों के बीच कम से कम 1 मीटर का साझा सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखा जाना चाहिए।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

Only 1 is Correct

केवल 1 सही है

Only 2 is Correct

केवल 2 सही है

1 and 2 both are correct

1 और 2 दोनों सही हैं.

Neither 1 nor 2 is Correct

न तो 1 न ही 2 सही है.

Not Answered

Click Here to Challenge Question No.: 30

Q.No: 30 Who broke the 30-year-old Asian Games men's 5,000m meet record in National Open Athletics Championships 2024?

राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 30 साल पुराना एशियाई खेलों के पुरुषों की 5,000 मीटर मीट रिकॉर्ड किसने तोड़ा?

Bahadur Singh

बहादुर सिंह

Gulveer Singh

गुलवीर सिंह

Neeraj Chopra

नीरज चोपड़ा

Hima Das

हिमा दास

Not Answered

Click Here to Challenge Question No.: 31

Q.No: 31 Consider the following statements regarding BRICS Science, Technology and Innovation (STI) cooperation:

- 1) It is based on mutual benefit and public-good-driven innovation.
- 2) It is governed only through annual Heads of State Summits.

Which of the statements is/are correct?

ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 1) यह पारस्परिक लाभ और जनहित से प्रेरित नवाचार पर आधारित है।
 2) यह केवल वार्षिक राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलनों के माध्यम से संचालित होता है।
 निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Only 1 is correct

केवल 1 सही है

Only 2 is correct

केवल 2 सही है

Both 1 and 2 are correct

1 और 2 दोनों सही हैं

Neither 1 nor 2 is correct

न तो 1 और न ही 2 सही है

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 32](#)

Q.No: 32 **Fill in the blank:**

The inaugural Khelo India Para Games took place in _____, showcasing seven sporting disciplines across three venues in New Delhi.

रिक्त स्थान भरें:

खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला आयोजन _____ में हुआ, जिसमें नई दिल्ली के तीन स्थानों पर सात खेल स्पर्धाओं का प्रदर्शन किया गया।

March 2024

मार्च 2024

January 2023

जनवरी 2023

December 2023

दिसंबर 2023

March 2025

मार्च 2025

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 33](#)

Q.No: 33 Read the below statements marked as Assertion (A) and Reason (R). Mark the **correct** options:

Assertion (A): Last Man in Tower explores the moral and ethical conflicts faced by residents during rapid urban development and real estate pressures in Mumbai.

Reason (R): The novel focuses on the historical evolution of Mumbai's architecture and its colonial past.

नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन (A) और कारण (R) से चिह्नित करें। सही विकल्पों पर निशान लगाएँ:

अभिकथन (A): "लास्ट मैन इन टावर" मुंबई में तेजी से बढ़ते शहरी विकास और रियल एस्टेट के दबाव के दौरान निवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले नैतिक और नैतिक संघर्षों की प्रस्तावित करता है।

कारण (R): यह उपन्यास मुंबई की वास्तुकला के ऐतिहासिक विकास और उसके औपनिवेशिक अतीत पर केंद्रित है।

Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.

A और R दोनों सत्य हैं, तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.

A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

A is true, but R is false.

A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

A is false, but R is true.

A गलत है, लेकिन R सत्य है।

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 34](#)

Q.No: 34 Choose the correctly matched cave feature and its formation:

सही सुमेलित गुफा विशेषता और उसके गठन का चयन करें:

Stalactite – Grows upward from cave floor

स्टैलेक्टाइट - गुफा के तल से ऊपर की ओर बढ़ता है
 Stalagmite - Formed by dripping water from cave ceiling
 स्टैलेग्माइट - गुफा की छत से टपकते पानी से निर्मित
 Pillar - Hangs from the cave roof
 स्तंभ - गुफा की छत से लटका हुआ
 Stalactite - Formed by upward mineral flow
 स्टैलेक्टाइट - ऊपर की ओर खनिज प्रवाह द्वारा निर्मित

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 35](#)

Q.No: 35 What is the primary function of the NVS-02 satellite launched aboard GSLV-F15?
 जीएसएलवी-एफ15 के माध्यम से प्रक्षेपित एनवीएस-02 उपग्रह का प्राथमिक कार्य क्या है?
 It supports meteorological observations for cyclone prediction.
 यह चक्रवात की भविष्यवाणी के लिए मौसम संबंधी अवलोकनों का समर्थन करता है।
 It enables satellite-based television broadcasting.
 यह उपग्रह आधारित टेलीविजन प्रसारण को सक्षम बनाता है।
 It boosts India's navigation system by offering precise position and timing data.
 यह सटीक स्थिति और समय संबंधी डेटा प्रदान करके भारत की नेविगेशन प्रणाली को बढ़ावा देता है।
 It conducts deep-space communication with planetary probes.
 यह ग्रहीय अन्वेषणों के साथ गहन अंतरिक्ष संचार करता है।

[Click Here to Challenge Question No.: 36](#)

Q.No: 36 **Assertion (A) and Reason (R) are given below. Choose the correct option:**
Assertion (A): Population growth can be measured in absolute numbers and percentage change per year.
Reason (R): Measuring growth only in absolute numbers provides detailed insights into population trends over time.
 नीचे अभिकथन (A) और कारण (R) दिए गए हैं। सही विकल्प चुनें:
 अभिकथन (A): जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष संख्याओं और प्रति वर्ष प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापा जा सकता है।
 कारण (R): केवल निरपेक्ष संख्याओं में वृद्धि को मापने से समय के साथ जनसंख्या प्रवृत्तियों की विस्तृत जानकारी मिलती है।
 Both A and R are true, and R is the correct explanation of A
 A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है
 Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A
 A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
 A is true, but R is false
 A सत्य है, लेकिन R असत्य है
 A is false, but R is true
 A असत्य है, लेकिन R सत्य है

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 37](#)

Q.No: 37 **Read the following statements regarding K. Sanjay Murthy's recent appointment as Comptroller and Auditor General (CAG) of India:**
 1. He took office as the CAG in November 2024 after the term of Girish Chandra Murmu.
 2. The CAG is a constitutional office, which is appointed by the President under Article 148 of the Indian Constitution.
 3. The CAG's term is only five years and cannot be repeated.
 Which of the above is/are correct?
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के रूप में के. संजय मूर्ति की हालिया नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़ें:
 1. उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मु के कार्यकाल के बाद नवंबर 2024 में CAG के रूप में पदभार ग्रहण किया।
 2. CAG एक संवैधानिक पद है, जिसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
 3. CAG का कार्यकाल केवल पाँच वर्ष का होता है और इसे दोहराया नहीं जा सकता।
 उपरोक्त में से कोन सा/से सही है/हैं?
 1 and 2 only
 केवल 1 और 2

2 and 3 only
केवल 2 और 3
1 and 3 only
केवल 1 और 3
1, 2 and 3 all are correct
1, 2 और 3 सभी सही हैं

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 38](#)

Q.No: 38 What is the primary function of the Golgi apparatus?

गॉल्जी उपकरण का प्राथमिक कार्य क्या है?

ATP production

एटीपी उत्पादन

Protein modification

प्रोटीन संशोधन

Lipid synthesis

लिपिड संश्लेषण

DNA replication

डीएनए प्रतिकृति

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 39](#)

Q.No: 39 As per Article 279A of the Indian Constitution, the GST Council's decisions require what kind of majority of the weighted votes of the members present and voting?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार, जीएसटी परिषद के निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?

Simple majority

साधारण बहुमत

Three-fourths majority

तीन-चौथाई बहुमत

Two-thirds majority

दो-तिहाई बहुमत

Half majority

आधा बहुमत

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 40](#)

Q.No: 40 Which of the following correctly reflects the legal implication of Article 255 regarding presidential or governor's assent to bills?

निम्नलिखित में से कौन सा विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध में अनुच्छेद 255 के कानूनी निहितार्थ को सही ढंग से दर्शाता है?

State law is void without written Governor assent.

राज्यपाल की लिखित स्वीकृति के बिना राज्य का कानून अमान्य है।

Mention of assent is mandatory for validity.

वैधता के लिए सहमति का उल्लेख अनिवार्य है।

Omission of prior recommendation doesn't invalidate law if assent is given.

यदि सहमति दे दी गई है तो पूर्व अनुशंसा को छोड़ देने से कानून अमान्य नहीं हो जाता।

President's assent must precede legislative passage to be valid.

विधायी पारित होने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है।

Not Answered

Q.No: 41	When light enters from air into a medium, its speed changes. Which of the following properties of light remains constant during this transition? जब प्रकाश वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसकी गति बदल जाती है। इस संक्रमण के दौरान प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्थिर रहता है?
	Wavelength वेवलेंथ
	Frequency आवृत्ति
	Speed रफ्तार
	Amplitude आयाम

Q.No: 42	The Bharatiya Sakshya Adhinyam (BSA) aims to align Indian evidence law with advancements in: भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) का लक्ष्य भारतीय साक्ष्य कानून को निम्नलिखित में प्रगति के साथ जोड़ना है:
	Forensic science and digital technology फॉरेंसिक विज्ञान और डिजिटल प्रौद्योगिकी
	Traditional agricultural practices पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ
	Ancient philosophical texts प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ
	Oral storytelling traditions मौखिक कहानी कहने की परंपराएँ

Not Answered

Q.No: 43	Read the below statements marked as Assertion (A) and Reason (R). Mark the correct options: Assertion (A): Rashtriya Vigyan Puraskar is a civilian science award. Reason (R): It is conferred by Ministry of Culture. नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन (A) और कारण (R) से चिह्नित करके पढ़िए। सही विकल्पों पर निशान लगाइए: अभिकथन (A): राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार एक नागरिक विज्ञान पुरस्कार है। कारण (R): यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है।
	Both A and R are true, and R is the correct explanation of A A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है
	Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
	A is true, but R is false A सत्य है, लेकिन R असत्य है
	A is false, but R is true A असत्य है, लेकिन R सत्य है

Not Answered

Q.No: 44	The Global Gender Gap Report primarily measures disparities between genders in which key areas? वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट मुख्यतः किन प्रमुख क्षेत्रों में लिंगों के बीच असमानताओं को मापती है?
	Politics, Economy, Health, Education राजनीति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा
	Income, Wealth, Land, Technology

आय, धन, भूमि, प्रौद्योगिकी
Crime, Law, Justice, Security
अपराध, कानून, न्याय, सुरक्षा
Environment, Climate, Water, Food
पर्यावरण, जलवायु, जल, भोजन

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 45](#)

Q.No: 45 Thang-Ta is a traditional martial dance associated with which northeastern state of India?

थांग-ता एक पारंपरिक मार्शल नृत्य है जो भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है?

Assam

असम

Nagaland

नगालैंड

Manipur

मणिपुर

Tripura

त्रिपुरा

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 46](#)

Q.No: 46 Which of the following industry pairs is **correctly** grouped as heavy industries?

निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग युग्म **सही** रूप से भारी उद्योगों के रूप में वर्गीकृत है?

Sewing machines and Paint brushes

सिलाई मशीनें और पेंट ब्रश

Shipbuilding and Automobile

जहाज निर्माण और ऑटोमोबाइल

Electric bulbs and Fuse wires

बिजली के बल्ब और फ्यूज तार

Watches and Paint brushes

घड़ियाँ और पेंट ब्रश

[Click Here to Challenge Question No.: 47](#)

Q.No: 47 The President is elected by an electoral college, while the Governor is _____.

राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यपाल _____ होता है।

Directly elected

प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित

Appointed by the President

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त

Nominated by Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित

Chosen by State Assembly

राज्य विधानसभा द्वारा चुना गया

[Click Here to Challenge Question No.: 48](#)

Q.No: 48	The Western Ghats are a recognized biodiversity hotspot. Which of the following is currently considered the most significant threat to its endemic species, beyond general habitat loss? पश्चिमी घाट एक मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। सामान्य आवास क्षति के अलावा, निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में इसकी स्थानिक प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है?
	Infrastructure development projects (e.g., roads, dams, mining). बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं (जैसे, सड़कें, बांध, खनन).
	Introduction of invasive alien species. आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रवेश।
	Forest fires due to climate change. जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल में आग लगना।
	Human-wildlife conflict due to encroachment. अतिक्रमण के कारण मानव-वन्यजीव संघर्ष।
Not Answered	

[Click Here to Challenge Question No.: 49](#)

Q.No: 49	NISAR's orbit regime is? NISAR की कक्षा व्यवस्था क्या है?
	GTO
	GTO
	GEO
	GEO
	Polar sun-sync
	Polar sun-sync
	LEEO
	LEEO

[Click Here to Challenge Question No.: 50](#)

Q.No: 50	Consider the following statements: 1. The Governor can dissolve the State Legislative Assembly. 2. The President has no such power regarding the Lok Sabha. Which of the above is/are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्यपाल राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है। 2. राष्ट्रपति के पास लोकसभा के संबंध में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
	Only 1 केवल 1
	Only 2 केवल 2
	Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
	Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2

Exam Level	: SSC CGL Tier 1 ▾
Test Date	: 13 Sep 2025
Test Time and Shift	: 12:30 PM (Shift-2)

Correct Option selected Wrong Option selected Correct Option Not Answered

Save / Print

PART-C (Quantitative Aptitude)

		Click Here to Challenge Question No.: 51
Q.No: 51	What is the value of $4 + 44 + 444 + 4444 + 44444$? 4 + 44 + 444 + 4444 + 44444 का मान क्या है?	
	49380	
	49380	
	42300	
	42300	
	41300	
	41300	
	45000	
	45000	

		Click Here to Challenge Question No.: 52
Q.No: 52	Simplify: $(1\frac{2}{5} + 2.6) - 1\frac{3}{4}$ सरल करें: $(1\frac{2}{5} + 2.6) - 1\frac{3}{4}$	
	2.25	
	2.25	
	2.1	
	2.1	
	2.35	
	2.35	
	2.5	
	2.5	

		Click Here to Challenge Question No.: 53
Q.No: 53	Evaluate the expression: $(\frac{1}{3-\sqrt{8}}) - (\frac{1}{\sqrt{8}-\sqrt{7}}) + (\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}) - (\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}) + (\frac{1}{\sqrt{5}-2}) = ?$ अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करें: $(\frac{1}{3-\sqrt{8}}) - (\frac{1}{\sqrt{8}-\sqrt{7}}) + (\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}) - (\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}) + (\frac{1}{\sqrt{5}-2}) = ?$	
	5	
	5	

3
3
2
2
0
0

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 54](#)

Q.No: 54 Determine the ratio of the number of students who play Football to the number of students who play Basketball in a survey of 120 students from the following table:

Category	Number
Play Football and Basketball	25
Play Football but not Basketball	45
Play Basketball but not Football	35
Play neither sport	15

निम्न तालिका से 120 छात्रों के सर्वेक्षण में फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात निर्धारित करें:

श्रेणी	संख्या
फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलें	25
फुटबॉल खेलें लेकिन बास्केटबॉल नहीं	45
बास्केटबॉल खेलें लेकिन फुटबॉल नहीं	35
कोई भी खेल न खेलें	15

6:7
6:7
7:5
7:5
7:6
7:6
5:7
5:7

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 55](#)

Q.No: 55 Tina and Meera started a business with ₹1,00,000 and ₹80,000 respectively. After 6 months, Meera added ₹40,000 more. Tina withdrew ₹20,000 at the same time. What is the profit-sharing ratio at the end of 1 year?

टीना और मीरा ने क्रमशः ₹1,00,000 और ₹80,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद, मीरा ने ₹40,000 और जोड़े। टीना ने उसी समय ₹20,000 निकाल लिए। 1 वर्ष के अंत में लाभ-साझाकरण अनुपात क्या है?

9:10
9:10
5:6
5:6
7:4
7:4
2:3
2:3

Not Answered

Q.No: 56	A invests ₹20,000, while B invests ₹30,000. A receives an additional 20% for management. The total profit is ₹60,000. What is A's share? A ने ₹20,000 का निवेश किया, जबकि B ने ₹30,000 का निवेश किया। A को प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 20% मिलता है। कुल लाभ ₹60,000 है। A का हिस्सा क्या है?
	₹51,200
	₹51,200
	₹41,200
	₹41,200
	₹31,200
	₹31,200
	₹21,200
	₹21,200

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 57](#)

Q.No: 57	A batsman's average score for a certain number of innings is 44. If he scores 132 runs in the next innings, his average becomes 48. How many innings did he play earlier? एक बल्लेबाज का निश्चित संख्या में पारियों का औसत स्कोर 44 है। यदि वह अगली पारी में 132 रन बनाता है, तो उसका औसत 48 हो जाता है। उसने पहले कितनी पारियां खेली थीं?
	21
	21
	22
	22
	23
	23
	24
	24

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 58](#)

Q.No: 58	The average of 13 numbers is 70. The average of the first five numbers is 60. The average of the next five numbers is 25 % higher than the average of the first five numbers. The 11th number is 6 less than the 13th number, and the 12th number is 4 greater than the 13th number. What is the average of the 11th and 12th numbers? 13 संख्याओं का औसत 70 है। पहली पाँच संख्याओं का औसत 60 है। अगली पाँच संख्याओं का औसत पहली पाँच संख्याओं के औसत से 25% अधिक है। 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है। 11वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या है?
	78
	78
	77
	77
	76
	76
	74
	74

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 59](#)

Q.No: 59	In an election, 80% of eligible voters cast their votes. Of these votes, 5% were declared invalid. If a winning candidate received 11,400 votes, which accounted for 60% of the total valid votes, what was the total number of eligible voters enrolled in that election? एक चुनाव में, 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले। इनमें से 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% है, तो उस चुनाव में नामांकित कुल योग्य मतदाताओं की संख्या कितनी थी?
----------	---

20,000
20,000
22,500
22,500
25,000
25,000
27,500
27,500

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 60](#)

Q.No: 60 The compound interest on a sum at 18 % p.a. for 1 ½ years, compounded yearly, is ₹2 862. Find the principal.
किसी धनराशि पर 18% प्रतिवर्ष की दर से 1 ½ वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ₹2 862 है। मूलधन ज्ञात कीजिए।

₹10,000
₹10,000
₹8 000
₹8 000
₹2,000
₹2,000
₹4,000
₹4,000

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 61](#)

Q.No: 61 If the compound interest on a certain sum at 16⅔% per annum for 3 years is ₹1270, find the simple interest on the same sum at the same rate and for the same period.
यदि किसी निश्चित धनराशि पर 16⅔% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ₹1270 है, तो उसी धनराशि पर समान दर से और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।

₹1080
₹1080
₹1000
₹1000
₹1500
₹1500
₹2000
₹2000

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 62](#)

Q.No: 62 A tea seller bought 15 kg of Darjeeling tea at ₹300 per kg and 25 kg of Assam tea at ₹240 per kg. He mixed them together. Due to a slight drop in market prices, he had to sell the entire mixture at ₹260 per kg. Calculate his total profit or loss.
एक चाय विक्रेता ने 15 किलो दार्जिलिंग चाय ₹300 प्रति किलो और 25 किलो असम चाय ₹240 प्रति किलो की दर से खरीदी। उसने उन्हें एक साथ मिला दिया। बाजार मूल्य में मामूली गिरावट के कारण, उसे पूरा मिश्रण ₹260 प्रति किलो पर बेचना पड़ा। उसका कुल लाभ या हानि की गणना करें।

Loss of ₹100
₹100 का नुकसान
Profit of ₹100
₹100 का लाभ
Profit of ₹200
₹200 का लाभ
Profit of ₹200
₹200 का लाभ

Not Answered

Q.No: 63	An antique dealer sold three items, A, B, and C, with their selling prices in the ratio 4:5:6. He suffered a loss of 10% on item A, made a profit of 50% on item B, and broke even (no profit, no loss) on item C. What was his approximate percentage gain or loss in the overall deal? एक पंटीक डीलर ने तीन वस्तुएं A, B और C बेचीं, जिनके विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5:6 था। उसे वस्तु A पर 10% का घाटा हुआ, वस्तु B पर 50% का लाभ हुआ, तथा वस्तु C पर उसका घाटा बराबर रहा (न लाभ, न हानि)। कुल सौदे में उसका अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत क्या था?
	loss of 8.88%
	8.88% की हानि
	profit of 8.88%
	8.88% का लाभ
	profit of 10.88%
	10.88% का लाभ
	loss of 10.88%
	10.88% की हानि

Not Answered

Click Here to Challenge Question No.: 64

Q.No: 64	A 75-liter mixture contains milk and water in the ratio 3:2. If 15 liters of this mixture are removed and replaced with 10 liters of pure milk, what is the new ratio of milk to water in the mixture? 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इस मिश्रण में से 15 लीटर निकाल दिया जाए और उसकी जगह 10 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया जाए, तो मिश्रण में दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा?
	11:7
	11:7
	23:12
	23:12
	17:11
	17:11
	19:12
	19:12

Not Answered

Click Here to Challenge Question No.: 65

Q.No: 65	A wholesaler buys a batch of ceiling fans at a 50% markup over the factory's base cost ₹C. He then allows a 20% trade discount to the retailer. The retailer applies a 40% markup on his cost and offers a flat 10% discount to customers on the printed price. If a customer finally pays ₹18,144, what is the original base cost (₹C) of one ceiling fan from the factory? एक थोक व्यापारी फैक्ट्री की आधार लागत ₹C से 50% अधिक कीमत पर सीलिंग फैन का एक बैच खरीदता है। फिर वह खुदरा विक्रेता को 20% व्यापार छूट देता है। खुदरा विक्रेता अपनी लागत पर 40% मार्कअप लगाता है और ग्राहकों को मुद्रित मूल्य पर 10% की फ्लैट छूट प्रदान करता है। यदि कोई ग्राहक अंततः ₹18,144 का भुगतान करता है, तो फैक्ट्री से एक सीलिंग फैन की मूल आधार लागत (₹C) क्या है?
	₹12,000
	₹12,000
	₹11,500
	₹11,500
	₹10,800
	₹10,800
	₹10,000
	₹10,000

Not Answered

Click Here to Challenge Question No.: 66

Q.No: 66	A can lay railway track between two specified stations in 16 days, while B can complete the same task in 12 days. When C assists them, they manage to finish the job in just 4 days. How long would it take for C to complete the job on their own?
----------	---

A दो निर्दिष्ट स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रेक 16 दिनों में बिछा सकता है, जबकि B उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। जब C उनकी सहायता के बिना केवल 4 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। C को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा?

$8\frac{1}{2}$ days

$8\frac{1}{2}$ दिन

$9\frac{1}{2}$ days

$9\frac{1}{2}$ दिन

$9\frac{3}{5}$ days

$9\frac{3}{5}$ दिन

10 days

10 दिन

[Click Here to Challenge Question No.: 67](#)

Q.No: 67 Three varieties of rice costing ₹40/kg, ₹50/kg, and a third unknown price are mixed in the ratio 2:3:5. If the resulting mixture is sold at ₹55/kg, making a profit of 10% on the cost price, what is the price of the third variety of rice per kg?

चावल की तीन किस्मों, जिनकी कीमत ₹40/किग्रा, ₹50/किग्रा तथा एक तीसरी अज्ञात कीमत है, को 2:3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण को ₹55/किग्रा पर बेचा जाता है, तो लागत मूल्य पर 10% का लाभ होता है, चावल की तीसरी किस्म का प्रति किग्रा मूल्य क्या है?

₹52.50

₹52.50

₹57.50

₹57.50

₹54.00

₹54.00

₹62.50

₹62.50

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 68](#)

Q.No: 68 A can build up a wall in 8 days while B can break it in 3 days. A has worked for 4 days and then B joined to work with A for another 2 days only. In how many days will A alone build up the remaining part of the wall?

A एक दीवार को 8 दिन में बना सकता है जबकि B इसे 3 दिन में तोड़ सकता है। A ने 4 दिन काम किया और फिर B ने A के साथ मिलकर केवल 2 दिन और काम किया। A अकेले दीवार का बचा हुआ हिस्सा कितने दिन में बना लेगा?

$7\frac{1}{3}$ days

$7\frac{1}{3}$ दिन

$8\frac{2}{3}$ days

$8\frac{2}{3}$ दिन

$9\frac{1}{3}$ days

$9\frac{1}{3}$ दिन

$5\frac{1}{2}$ days

$5\frac{1}{2}$ दिन

[Click Here to Challenge Question No.: 69](#)

Q.No: 69 An airplane travels a specific distance at a speed of 240 km/h over the course of 5 hours. To cover the same distance in just 1 hour, it needs to fly at a speed of:

एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किमी/घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। उसी दूरी को सिर्फ 1 घंटे में तय करने के लिए, उसे इस गति से उड़ना होगा:

1200 km/h

1200 किमी/घंटा

1500 km/h
1500 किमी/घंटा
1400 km/h
1400 किमी/घंटा
1600 km/h
1600 किमी/घंटा

[Click Here to Challenge Question No.: 70](#)

Q.No: 70	A person travels from city A to city B. If he travels at a speed of 50 km/h, he arrives 1 hour early. If he travels at a speed of 30 km/h, he arrives 1 hour late. What is the distance (in km) between city A and city B? एक व्यक्ति शहर A से शहर B तक यात्रा करता है। यदि वह 50 किमी/घंटा की गति से यात्रा करता है, तो वह 1 घंटा पहले पहुँच जाता है। यदि वह 30 किमी/घंटा की गति से यात्रा करता है, तो वह 1 घंटा देरी से पहुँचता है। शहर A और शहर B के बीच की दूरी (किमी में) क्या है?
	150 km
	150 किमी
	120 km
	120 किमी
	200 km
	200 किमी
	180 km
	180 किमी

[Click Here to Challenge Question No.: 71](#)

Q.No: 71	A ring-shaped metallic sheet has outer and inner radii 10 cm and 6 cm. What percentage of the full circle's area is the ring? एक वलय के आकार की धातु की शीट की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएँ 10 सेमी और 6 सेमी हैं। वलय का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है?
	36%
	36%
	48%
	48%
	64%
	64%
	76%
	76%

[Click Here to Challenge Question No.: 72](#)

Q.No: 72	A circular pond is surrounded by a path 2 m wide. If the total area (pond + path) is 616 m ² and the pond area is 452.16 m ² , what is the radius of the pond? एक गोलाकार तालाब 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है। यदि कुल क्षेत्रफल (तालाब + रास्ता) 616 वर्ग मीटर है और तालाब का क्षेत्रफल 452.16 वर्ग मीटर है, तो तालाब की त्रिज्या क्या है?
	10 m
	10 मी
	11 m
	11 मी
	12 m
	12 मी
	13 m
	13 मी

[Click Here to Challenge Question No.: 73](#)

Q.No: 73	The ratio of the circumferences of two circular flower beds is 3:5. If the smaller flower bed has a radius of 9 m, what is the radius of the larger flower bed?
----------	---

	दो गोलाकार फूलों की क्यारियों की परिधियों का अनुपात 3:5 है। यदि छोटी फूलों की क्यारी की त्रिज्या 9 मीटर है, तो बड़ी फूलों की क्यारी की त्रिज्या कितनी है?
<input type="radio"/>	15 m
<input type="radio"/>	15 मीटर
<input type="radio"/>	17 m
<input type="radio"/>	17 मीटर
<input type="radio"/>	19 m
<input type="radio"/>	19 मीटर
<input type="radio"/>	21 m
<input type="radio"/>	21 मीटर

[Click Here to Challenge Question No.: 74](#)

Q.No: 74 What is the equation of line through (0,3) with slope -1?
(0,3) से होकर जाने वाली ढलान -1 वाली रेखा का समीकरण क्या है?

$y = -x + 3$

$y = -x + 3$

$y = x - 3$

$y = x - 3$

$y = -x - 3$

$y = -x - 3$

$y = x + 3$

$y = x + 3$

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 75](#)

Q.No: 75 Given, $x + \frac{1}{x} = 5$, then determine the value of $x^2 + \frac{1}{x^2}$.

$x + \frac{1}{x} = 5$, तो का मूल्य क्या है $x^2 + \frac{1}{x^2}$.

25

25

24

24

26

26

23

23

Exam Level	: SSC CGL Tier 1 ▼
Test Date	: 13 Sep 2025
Test Time and Shift	: 12:30 PM (Shift-2)

Correct Option selected Wrong Option selected Correct Option Not Answered

Save / Print

Undertaking by the candidate :
I acknowledge that this saved question paper is for my personal use and self-analysis only. I understand that sharing, distributing, or using it for commercial or any other purposes is strictly prohibited and may lead to legal action as per applicable acts, rules and regulations.

Note:
The candidates may note that in the challenge module the sequence of the questions and the options may be different from how it appeared during the examination. This is because in the challenge module the sequence of the questions as well as the answers will be the same for all the candidates who appeared in a particular shift while during the actual examination these sequences were different for different candidates. However the answer key selected by the candidates during the examination will exactly be reflected in the challenge module.

- [Click Here for PART-A](#)
- [Click Here for PART-B](#)
- [Click Here for PART-C](#)
- [Click Here for PART-D](#)

PART-D (English Comprehension)

Q.No: 76	Select the most appropriate synonym of the given word: BIBLIOPHILE
	Publisher
	Bookkeeper
	Librarian
	Book-lover

Q.No: 77	Choose the correct meaning of idiom: Has two strings to his bow
	He is indecisive in crucial matters.
	He has two romantic interests simultaneously.
	He has an additional skill or option to rely on.
	He uses deception to achieve goals.

Q.No: 78	Select the most appropriate antonym of the given word. Lachrymose
	Tearful
	Mournful
	Weepy
	Jovial
Not Answered	

Q.No: 79	Identify the misspelt word
	Acquiescence
	Bourgeoisie
	Conscientious
	Epitome

Q.No: 80	Spot the correct spelling of an electron-transport protein.
	Cytocrome
	Cytocrhome
	Cytochrome
	Cytohrome

Q.No: 81	Choose the correct one-word substitute for: 'A state of temporary disuse or suspension'.
	Intermission
	Recess
	Abeyance
	Dormancy

Q.No: 82	Select the correct option: The analyst found the correlation to be ___ marginal to influence policy.
	too
	very
	so
	as

Q.No: 83	Select the correct option: Her argument was compelling; ___, it was based on outdated data.
	otherwise
	conversely
	nevertheless
	subsequently

Q.No: 84	Select the correct option: Had it not been for her timely intervention, the discussion might well have ___ into an acrimonious stalemate.
	evolved
	devolved
	emerged
	absorbed

Q.No: 85	Find the part of the sentence that contains an error: The regulator's decision to postpone the implementation (1)/ was attributed partly to industry pressure (2)/ and partly due to legal ambiguity (3)/ surrounding the recent amendments. (4)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

Q.No: 86	Find the part of the sentence that contains an error: That there exists no recourse for citizens (1)/ if environmental violations are condoned at the ministerial level (2)/ underline a systemic erosion of (3)/ constitutional accountability. (4)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

Q.No: 87	Change the following from active to passive: We shall have dispatched the invitations before Friday evening.
	The invitations shall have dispatched before Friday evening.
	The invitations shall have had been dispatched before Friday evening.
	The invitations shall have be dispatched before Friday evening.
	The invitations shall have been dispatched before Friday evening.

Q.No: 88	Select the sentence containing the homonym of the highlighted word: The medieval oriel window projected elegantly from the chapel wall.
	The priest admired the sunlight filtering through the oriel.
	The duke stood by the oriel gazing at the courtyard.
	The technician adjusted the frequency on the oriel.
	The stained-glass oriel was restored by artisans.

Q.No: 89 **Convert the sentence provided below from its passive voice structure to an active voice structure:**

The photos will be printed by the studio within an hour.

The studio prints the photos within an hour.

The studio will print the photos within an hour.

The photos printed by the studio soon.

The studio had printed the photos in an hour.

Q.No: 90 **Read the following passage and answer the questions based on the passage:**

In contemporary discourse, the debate between entrepreneurship and conventional employment has gained remarkable traction. While traditional employment offers predictability, structured growth, and a defined career trajectory, entrepreneurship appeals to those seeking autonomy, innovation, and the potential for exponential returns. However, both paths are fraught with distinct advantages and inherent uncertainties. Employment, particularly within established organizations, provides financial stability, social recognition, and institutional support. Employees are not burdened with existential risks such as capital loss or market unpredictability. Instead, they operate within frameworks of responsibility and hierarchy, where risk is absorbed at higher managerial levels. For many, this structure offers psychological comfort and a clear roadmap for progression. Conversely, entrepreneurship demands resilience, resourcefulness, and a high tolerance for ambiguity. Entrepreneurs must navigate volatile markets, regulatory complexities, and the absence of assured income—challenges often underestimated by aspirants. Yet, for those with a risk appetite and creative acumen, entrepreneurship promises a unique form of fulfillment. It allows individuals to disrupt existing paradigms, build ventures from the ground up, and possibly shape industries. Societal perceptions further complicate the dichotomy. In many cultures, steady employment is seen as the hallmark of success, while entrepreneurial endeavors are often perceived as reckless or unstable—until they succeed. This perception, however, is gradually shifting as global startup ecosystems mature and innovation becomes synonymous with progress. The real decision, therefore, lies not in which path is superior but in aligning one's temperament, values, and long-term goals with the demands of each route. Entrepreneurship may offer liberation, but it is not without sacrifice. Employment may provide security, but it can come at the cost of creative constraint. A reflective, context-aware approach—not blind aspiration—is essential for navigating this professional crossroads.

According to the passage, which quality is most crucial for entrepreneurs?

Obedience

Resilience

Delegation

Conformity

Q.No: 91 **Read the following passage and answer the questions based on the passage:**

In contemporary discourse, the debate between entrepreneurship and conventional employment has gained remarkable traction. While traditional employment offers predictability, structured growth, and a defined career trajectory, entrepreneurship appeals to those seeking autonomy, innovation, and the potential for exponential returns. However, both paths are fraught with distinct advantages and inherent uncertainties. Employment, particularly within established organizations, provides financial stability, social recognition, and institutional support. Employees are not burdened with existential risks such as capital loss or market unpredictability. Instead, they operate within frameworks of responsibility and hierarchy, where risk is absorbed at higher managerial levels. For many, this structure offers psychological comfort and a clear roadmap for progression. Conversely, entrepreneurship demands resilience, resourcefulness, and a high tolerance for ambiguity. Entrepreneurs must navigate volatile markets, regulatory complexities, and the absence of assured income—challenges often underestimated by aspirants. Yet, for those with a risk appetite and creative acumen, entrepreneurship promises a unique form of fulfillment. It allows individuals to disrupt existing paradigms, build ventures from the ground up, and possibly shape industries. Societal perceptions further complicate the dichotomy. In many cultures, steady employment is seen as the hallmark of success, while entrepreneurial endeavors are often perceived as reckless or unstable—until they succeed. This perception, however, is gradually shifting as global startup ecosystems mature and innovation becomes synonymous with progress. The real decision, therefore, lies not in which path is superior but in aligning one's temperament, values, and long-term goals with the demands of each route. Entrepreneurship may offer liberation, but it is not without sacrifice. Employment may provide security, but it can come at the cost of creative constraint. A reflective, context-aware approach—not blind aspiration—is essential for navigating this professional crossroads.

Why is employment often psychologically comforting, as per the passage?

It allows for flexible innovation

It eliminates the need for competition

It provides hierarchy and reduced risk

Q.No: 92	<p>Read the following passage and answer the questions based on the passage:</p> <p>In contemporary discourse, the debate between entrepreneurship and conventional employment has gained remarkable traction. While traditional employment offers predictability, structured growth, and a defined career trajectory, entrepreneurship appeals to those seeking autonomy, innovation, and the potential for exponential returns. However, both paths are fraught with distinct advantages and inherent uncertainties. Employment, particularly within established organizations, provides financial stability, social recognition, and institutional support. Employees are not burdened with existential risks such as capital loss or market unpredictability. Instead, they operate within frameworks of responsibility and hierarchy, where risk is absorbed at higher managerial levels. For many, this structure offers psychological comfort and a clear roadmap for progression. Conversely, entrepreneurship demands resilience, resourcefulness, and a high tolerance for ambiguity. Entrepreneurs must navigate volatile markets, regulatory complexities, and the absence of assured income—challenges often underestimated by aspirants. Yet, for those with a risk appetite and creative acumen, entrepreneurship promises a unique form of fulfillment. It allows individuals to disrupt existing paradigms, build ventures from the ground up, and possibly shape industries. Societal perceptions further complicate the dichotomy. In many cultures, steady employment is seen as the hallmark of success, while entrepreneurial endeavors are often perceived as reckless or unstable—until they succeed. This perception, however, is gradually shifting as global startup ecosystems mature and innovation becomes synonymous with progress. The real decision, therefore, lies not in which path is superior but in aligning one’s temperament, values, and long-term goals with the demands of each route. Entrepreneurship may offer liberation, but it is not without sacrifice. Employment may provide security, but it can come at the cost of creative constraint. A reflective, context-aware approach—not blind aspiration—is essential for navigating this professional crossroads.</p> <p>How does the passage describe societal views toward entrepreneurship?</p> <p>Always supportive</p> <p>Unanimously dismissive</p> <p>Overwhelmingly negative</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Skeptical until proven successful</p>
----------	--

Q.No: 93	<p>Read the following passage and answer the questions based on the passage:</p> <p>In contemporary discourse, the debate between entrepreneurship and conventional employment has gained remarkable traction. While traditional employment offers predictability, structured growth, and a defined career trajectory, entrepreneurship appeals to those seeking autonomy, innovation, and the potential for exponential returns. However, both paths are fraught with distinct advantages and inherent uncertainties. Employment, particularly within established organizations, provides financial stability, social recognition, and institutional support. Employees are not burdened with existential risks such as capital loss or market unpredictability. Instead, they operate within frameworks of responsibility and hierarchy, where risk is absorbed at higher managerial levels. For many, this structure offers psychological comfort and a clear roadmap for progression. Conversely, entrepreneurship demands resilience, resourcefulness, and a high tolerance for ambiguity. Entrepreneurs must navigate volatile markets, regulatory complexities, and the absence of assured income—challenges often underestimated by aspirants. Yet, for those with a risk appetite and creative acumen, entrepreneurship promises a unique form of fulfillment. It allows individuals to disrupt existing paradigms, build ventures from the ground up, and possibly shape industries. Societal perceptions further complicate the dichotomy. In many cultures, steady employment is seen as the hallmark of success, while entrepreneurial endeavors are often perceived as reckless or unstable—until they succeed. This perception, however, is gradually shifting as global startup ecosystems mature and innovation becomes synonymous with progress. The real decision, therefore, lies not in which path is superior but in aligning one’s temperament, values, and long-term goals with the demands of each route. Entrepreneurship may offer liberation, but it is not without sacrifice. Employment may provide security, but it can come at the cost of creative constraint. A reflective, context-aware approach—not blind aspiration—is essential for navigating this professional crossroads.</p> <p>What is implied by “absence of assured income” in the context of entrepreneurship?</p> <p>Entrepreneurs always work voluntarily</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No fixed salary or stable cash flow</p> <p>Profits are guaranteed from start</p> <p>Income is controlled by the government</p>
----------	---

Q.No: 94 **Read the following passage and answer the questions based on the passage:**
 In contemporary discourse, the debate between entrepreneurship and conventional employment has gained remarkable traction. While traditional employment offers predictability, structured growth, and a defined career trajectory, entrepreneurship appeals to those seeking autonomy, innovation, and the potential for exponential returns. However, both paths are fraught with distinct advantages and inherent uncertainties. Employment, particularly within established organizations, provides financial stability, social recognition, and institutional support. Employees are not burdened with existential risks such as capital loss or market unpredictability. Instead, they operate within frameworks of responsibility and hierarchy, where risk is absorbed at higher managerial levels. For many, this structure offers psychological comfort and a clear roadmap for progression. Conversely, entrepreneurship demands resilience, resourcefulness, and a high tolerance for ambiguity. Entrepreneurs must navigate volatile markets, regulatory complexities, and the absence of assured income—challenges often underestimated by aspirants. Yet, for those with a risk appetite and creative acumen, entrepreneurship promises a unique form of fulfillment. It allows individuals to disrupt existing paradigms, build ventures from the ground up, and possibly shape industries. Societal perceptions further complicate the dichotomy. In many cultures, steady employment is seen as the hallmark of success, while entrepreneurial endeavors are often perceived as reckless or unstable—until they succeed. This perception, however, is gradually shifting as global startup ecosystems mature and innovation becomes synonymous with progress. The real decision, therefore, lies not in which path is superior but in aligning one's temperament, values, and long-term goals with the demands of each route. Entrepreneurship may offer liberation, but it is not without sacrifice. Employment may provide security, but it can come at the cost of creative constraint. A reflective, context-aware approach—not blind aspiration—is essential for navigating this professional crossroads.

What does the word "dichotomy" in the passage most nearly mean?

- A shared understanding
- A mutual advantage
- A clear division between two contrasting things
- A repeated pattern

Q.No: 95 Choose the most suitable option to replace the highlighted part of the sentence:
 He is looking forward **to meet you soon**.

- to meeting you soon
- for meeting you
- meeting you
- to have met you

Q.No: 96 Choose the most suitable option to replace the highlighted part of the sentence:
 The judge declared the prisoner **as guilty**.

- guilty for
- guilty
- as being guilty
- guilty to crime

Q.No: 97 **A sentence is provided in direct speech. From the four given options, choose the one that most accurately conveys the sentence in its corresponding indirect speech.**
 Ravi said, "I like this pen."

- Ravi said he liked that pen.
- Ravi said he like that pen.
- Ravi said he liked this pen.
- Ravi said he likes that pen.

Q.No: 98	<p>A sentence is provided in indirect speech. From the four given options, choose the one that most accurately conveys the meaning of its corresponding direct speech.</p> <p>The judge said that justice must be served at any cost.</p>
	"Justice should be served at any cost," said the judge.
	"Justice must be served at any cost," the judge said.
	"We serve justice at any cost," said the judge.
	"One must serve justice," the judge said.

Q.No: 99	<p>Rearrange the following sentences to form a coherent paragraph:</p> <p>1. The rapid spread of misinformation and disinformation on social media platforms represents a major challenge to public discourse. 2. This method involves a systematic verification of facts, claims, and sources to provide a credible assessment of accuracy. 3. This phenomenon can erode public trust in news sources and undermine informed decision-making in a democratic society. 4. As a result, professional fact-checking organizations have emerged as a critical line of defense against the proliferation of false narratives.</p>
	2, 1, 4, 3
	3, 1, 2, 4
	1, 3, 4, 2
	1, 4, 2, 3

Q.No: 100	<p>Rearrange the following sentences to form a coherent paragraph:</p> <p>1. It is a process that involves the systematic and objective investigation of a subject to discover new facts or to confirm existing ones. 2. Research is a foundational pillar of academic and scientific progress. 3. This can be either theoretical, aiming to expand knowledge, or applied, seeking to solve a practical problem. 4. The findings of this investigation are then documented and peer-reviewed to ensure validity and credibility.</p>
	2, 1, 3, 4
	1, 2, 4, 3
	4, 3, 2, 1
	3, 4, 1, 2

Not Answered